#### **Uno Minda Limited**



Ref. No. Z-IV/R-39/D-2/NSE/207 & 174

Date: November 22, 2025

National Stock Exchange of India Ltd. Listing Deptt., Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051	BSE Ltd. Floor - 25, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai-400 001.
NSE Symbol: UNOMINDA	BSE Scrip: 532539

Sub: - Submission of Newspaper clippings

Dear Sirs,

We are pleased to enclose copies of the newspapers advertisement of the Company published in Financial Express (English) and Jansatta (Hindi) on November 21, 2025 pertaining to the Notice given to all such shareholders of the Company and erstwhile Harita Seating Systems Ltd., which has been merged with the Company, to make an applicant to the Company/ Registrar of the Company for claiming their unclaimed dividend for the year 2018-19, so that the unclaimed dividend of the said year and the underlying shares are not transferred to the IEPF.

The copy of the aforesaid newspapers clippings also uploaded on the company's website at www.unominda.com

Thanking you.

Yours faithfully, For Uno Minda Limited

**Tarun Kumar Srivastava** 

Skivastava

**Company Secretary & Compliance Officer** 

M. No. A11994

Place: Manesar, Gurugram

Encl: as above

**FINANCIAL EXPRESS** 

# India seeks chipmaking parity with major producers by 2032


SANKALP PHARTIYAL November 20

**UNION MINISTER OF Elec**tronics and IT Ashwini Vaishnaw on Thursday said India's chipmaking capabilities are set to be at par with other major producers by 2032, an aggressive timeline that underscores the government's urge to bolster domestic manufacturing.

"In case of semiconductors, by 2031-2032 — in that timeframe we will be equivalent to what many of these countries are at today," Vaishnaw told Bloomberg's New Economy Forum in Singapore. "Then it'll be a race which will be very fair and a level playing field."

The government's semiconductor push is in early stages, with the country boosting spending to attract designers and manufacturers.

It has used a \$10 billion



fund to fuel its chip programme, helping to bring about several assembly, packaging and testing ventures.

Micron Technology has set up a plant Gujarat and conglomerate Tata Group is one of are at today Then it'll be a race which will be very fair and a

silicon domestically. Still, India lags far behind chip industry leaders Taiwan and South Korea and nations such as the US, China and Japan, which are spending

10 producers that'll fabricate

hundreds of billions of dollars to build domestic chipmaking capacities and woo the world's biggest companies.

The moves are aimed at securing supplies of components that are key for future technologies from artificial intelligence to self-driving cars.

Three of India's chip facilities will start commercial production early next year, Vaishnaw said. India's sweeping state-

backed semiconductor drive coupled with its growing design ecosystem and deep bench of engineering talent — is helping the country reach a stage where private capital begins to flow in on its own, he said.

The government is hoping to attract chip giants in much the same way state-backed subsidies have encouraged Apple and its partners to manufacture iPhones in the country. —BLOOMBERG

# India, Israel agree on FTA terms

PIYUSH GOYAL,

COMMERCE AND INDUSTRY MINISTER

India and Israel have

decided to enter into

negotiations for an

having executed a

bilateral investment

FTA soon after

treaty

Target 10-fold rise in trade

**MUKESH JAGOTA** New Delhi, November 20

**INDIAAND ISRAEL** on Thursday signed the Terms of Reference (ToR) of a free trade agreement (FTA) that marks the start of negotiations to reach a deal. The pact is expected to

increase bilateral trade tenfold in the next decade. "India and Israel have

decided to enter into negotia-

tions for an FTA soon after having executed a bilateral investment treaty (BIT). "And collectively FTA and BIT will open the doors for greater market access, flow of capital, investments and trade,"

ter Piyush Goyal said after the signing of ToR in Tel Aviv. While ToR for India was signed by Goyal, from the Israeli side Minister of Economy and Industry of Israel Nir

commerce and industry minis-

Barkat initialled the document. times," Goyal said. In 2024-The ToR of a FTA formally

launches the negotiations, outlines the areas it will cover and sets a roadmap and timelines of negotiations. The BIT between India and Israel was signed in September.

"We will be aspiring for very large outcomes from our agreement. Rapid outcomes. We should aspire for a \$30-40 billion bilateral trade in the next five years and look in the next decade to grow 10 25, India-Israel trade stood at \$3.62 billion. Israel's trade minister

Barkat said, "the foundation FTA that we have laid today will enable us to do things we would not have done with other countries."

He said the Israeli government is willing to help their companies to invest in India through help in raising capital to deploy in India and share even a bit of risk of that investment.

### Looking to start exporting dairy items to Israel soon: Amul MD

PRESS TRUST OF INDIA Tel Aviv, November 20

AMUL IS EXPORTING ghee to Israel and will soon expand its dairy export portfolio to cater not just to the Indian diaspora but also to the local population, GCMMF Managing Director Jayen Mehta said.

**Gujarat Cooperative Milk** Federation Marketing (GCMMF) sells dairy products under the 'Amul' brand.

"We are exporting ghee here but we will soon expand to mul tiple other products which not just the Indian diaspora wants, but it can go into the mainstream market,"Mehta told PTI

He is part of the 60-member business delegation accompa nying Commerce and Industry Minister Piyush Goyal here.

## Non-revision of national wage floors disappoints House panel

**FE BUREAU** New Delhi, November 20

**HAVE** LAWMAKERS **EXPRESSED** disappointment in the Union Labour Ministry failing to revise the non-binding National Floor Level Minimum Wage (NFLMW) for the last eight years.

These wage levels are expected to be revised biennially, in keeping with the price pressures in the economy and other factors.

The National Committee on Rural Labour introduced NFLMW in 1991 as a nonstatutory measure to establish a minimum wage structure and reduce wage disparities across India, factoring into the rise in the consumer price index for industrial workers (CPI-IW).

Since it has only persuasive value, the Centre can only request states and union territories to fix and revise the minimum wages for all scheduled employment in their respective domains, ensuring they are not below the NFLMW.



Parliamentary Standing Committee on Labour and Employment said members across party lines, barring those from the ruling BJP, were critical of the labour ministry's "lapse" and asked it to submit in the next sitting, in writing, the reasons for not hiking the

"Considering that the increase in floor wages is only advisory only on the part of the central government, and doesn't require it to bear any financial burden, the ministry's lapse is inexplicable," said a trade union source.

NFLMW, at its regular intervals.

The Parliamentary Stand-Sources who attended the ing Committee on Labour and Employment has 29 members. Of them, 15 attended the Thursday meeting, including the committee chairman, Basavraj Bommai. Though the meeting was supposed to deliberate on the implementation of the labour codes, which have been hanging fire since 2019-20, a lion's share of the

two-hour meeting was spent

on the non-hiking of the

NFLMW issue.

NFLMW was last revised from 160 to 178 per day, effective from August 1, 2017. In 2019, NFLMW was subsumed within the Code on Wages, 2019, which provides for the Centre to fix the floor wages. The Code stipulates that minimum wage rates fixed by the appropriate government shall not be less than the floor wage.

Proper and timely revision of the NFLMW by the Centre would have enabled millions of workers in sectors like plantations and services to benefit from the economy's buoyancy and escape poverty, provided states had followed the norm.

## NHAI's public InvIT takes first step

**MUKESH JAGOTA** New Delhi, November 20

THE NATIONAL HIGHWAYS Authority of India (NHAI) has set the ball rolling on its public Infrastructure Investment Trust (InvIT) that will in 3-5 years hold 1,500 km of highways.

The public InvIT will be in addition to the private InVIT -National Highways Infrastructure Trust (NHIT) — also sponsored by NHAI.

While creating new avenues for monetisation, the public InvIT will also enable retail investors to benefit from the returns of high revenue generating national highways. Like in the NHIT, the highway builder will also retain 15% of the units of the public InvIT as sponsor.

NHAI is in the process of establishing Raajmarg Infra Investment Trust (RIIT) as a public InvIT.

As part of this initiative, NHAI has incorporated Raajmarg Infra Investment Managers Private Limited (RIIMPL) as the investment manager for the proposed InvIT, according to a statement.

RIIMPL was launched by NHAI Chairman Santosh Kumar Yadav in Mumbai on Thursday. The investment



manager is responsible for managing the trust's assets (which will come through NHAI's monetisation programme) and ensuring returns for unit holders,

Once an InvIT acquires assets after an upfront payment, it gets the right to collect user fees for 20 years. Return for the investors are paid through user fee collection.

RIIMPL is a collaborative venture with equity participation from leading banks and financial institutions including State Bank of India, Punjab National Bank, National Bank for Financing Infrastructure and Development (NaBFID), Axis Bank, Bajaj Finserv Ventures Ltd., HDFC Bank, ICICI Bank, IDBI Bank, IndusInd Bank, and Yes Bank, the statement added.

## RE share in power generation to cross 35% by 2030, says Icra

**ARUNIMA BHARADWAJ** New Delhi, November 20

THE SHARE OF power generation from renewable energy (RE) capacities, including large hydro, is expected to cross 35% by FY30 from 22.1% in FY25, with expected incremental capacity addition of 200 GW between FY25 till FY30, as per Icra.

This in turn also hinges on the extent of implementation of the ongoing project pipeline where the projects are bid out and the power purchase agreements are

signed, the development of adequate transmission connectivity infrastructure as well as timely bidding for new RE projects, along with the PPAs signing by central nodal agencies, the rating agency Icra pointed out that after a

awarded in FY24, which is followed by 40.6 GW in FY25, the bidding activity has slowed sharply in the current year with only 5.8 GW awarded in the first eight months of FY26.

sizable RE capacity of 47.3 GW

Further, the unsigned PPA capacity remains sizable at about 40-45 GW as on date.



Projected power generation mix as per ICRA's estimate

FY25 FY30 (in %) Coal Nuclear Hydro RE

### छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल पर्यावास भवन, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला- रायपुर (छ.ग.) // सर्व संबंधित को सूचना //

भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 (यथा संशोर्धित) के तहत सर्व संबंधितों को सचित किया जाता है कि Gare Palma Sector-I, Open cast cum Underground Coal Mine in Mand Raigarh Coalfield (area: 3020 Ha having production capacity 15 MTPA) by M/s Jindal Power Limited located at Villages: Budhiya, Raipara, Amgaon, Khuruslenga, Dhaurabhata Bijna, Libra, Mahloi, Bagbari, Jhikabahal, Tilaipara, Samkera Jharna and Tangarghat, Tehsil-Tamnar, District - Raigarh, State-Chhattisgarh की स्थापना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेत् लोक सुनवाई बाबत छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल में आवेदन किया गया है। उक्त परियोजनों के संबंध मे आपत्ति / सुझाव / विचार / टीका-टिप्पणी इस सूचना के जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के अंदर क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायगढ़ वे कार्यालय में मौखिक अथवा लिखित रूप से कार्यालयीन समय में प्रस्तत की जा सकर्त है। इस परियोजना के लिए लोक सुनवाई दिनांक 08/12/2025, दिन सोमवार को प्रातः 11:00 बजेसे स्थल - साप्ताहिक बाजार का मैदान (शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के समीप), ग्राम - धौराभाठा,तहसील-तमनार, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) में नियत की गई है। यह भी सूचित हो कि लोक सुनवाई के दौरान भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ऑफिस मेमोरेण्डम F. No. 22-25/2020-IA.III दिनांक 14.09.2020 तथा कोरोना वायरर के नियंत्रण एवं रोकथाम हेत् शासन द्वारा जारी समस्त दिशा-निर्देशों का अक्षरश पालन कराया जाना अनिवार्य होगा

ई.आई.ए. अधिसूचना दिनांक 14 सितंबर 2006 (यथा संशोधित) के अनुसार संबंधित व्यक्तियों के अवलोकन/पठन हेतु ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट अग्रेजी भाषा में एव इसकी संक्षिप्त सार रिपोर्ट हिन्दी एवं अंग्रेजी तथा सी.डी. (सॉफ्ट कॉपी) कार्यालय कलेक्टर रायगढ़, कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत रायगढ़ कार्यालय महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र रायगढ, कार्यालय अनविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा, जिला-रायगढ़, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल टी.व्ही. टॉवर रोड रायगढ़, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत - तमनार, जिला - रायगढ़, सरपंच / सचिव कार्यालय ग्राम पंचायत बुढ़िया, समकेरा आंमगांव, खुरूशलेंगा, धौराभांठा, बिजना, लिबरा, महलोई, झिंकाबहाल, झरना टांगरघाट, तहसील- तमनार, जिला - रायगढ़, डायरेक्टर पर्यावरण, वन एवं जलवार परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, नई दिल्ली, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय अरण्य भवन, नार्थे ब्लॉक सेक्टर-19, नवा रायपुर एवं मुख्यालयें, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, पर्यावास भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर (छ.ग.) में रखी हुई है।

छत्तीसगढ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर (छ.ग.

## CAG seeks greater uniformity in expenditure segregation

**FE BUREAU** 

New Delhi, November 20

IN A SIGNIFICANT move to overhaul the country's public expenditure classification framework, the Comptroller and Auditor General (CAG) has issued a directive harmonising the Object Heads of Expenditure across the Union and all state governments, aimed at uniformity to budgeting and accounting systems nationwide.

The common and standardised list of Object Heads addresses decades-long inconsistencies in how states classify disaggregated expenditure.

These variations had long impeded inter-state and intertemporal comparisons and complicated alignment with Union government accounts. Under the directive, all



states must adopt the harmonised Object Heads by 2027-28, a step expected to bring long-awaited clarity and comparability to budgeting.

"The wide variation among states in the operation of expenditure heads at the disaggregate level had been engaging the attention of multiple stakeholders and was impacting inter-temporal and

inter-state comparison as well as those with the Union government," said Jayant Sinha, deputy CAG.

Sinha also highlighted progress on advancing the finalisation of monthly civil accounts, a reform aimed at strengthening fiscal transparency and enabling swifter decision-making.

Through coordinated efforts with state governments and the Reserve Bank of India, the date for rendering monthly civil accounts has been advanced from the 25th of the following month to the 10th in about ten states and the 15th in another eight. This acceleration ensures that state governments, the RBI, MoSPI and other stakeholders have timely fiscal information, thereby bolstering fiscal discipline.





CALL: +91 8287845511, 9810054131 / Vinsoft62@gmail.com

## **MUNICIPAL CORPORATION OF DELHI** OFFICE OF EXECUTIVE ENGINEER (ELECT.)

## **PUBLIC NOTICE**

The general public can lodge a complaint through the following mediums in case of malfunction of LED street lights, park lights and semi high mast lights falling under the jurisdiction of Najafgarh Zone, West Zone, South Zone and Central Zone of the Municipal Corporation of Delhi:-

Toll Free No. : 1800-203-8500 Missed Call No.: 9650557785 WhatsApp No. : 9650557785 SMS No. : 9650557785

Email: southdelhi@esmartlighting.com THIS FACILITY IS AVAILABLE FOR ALL DAYS OF THE WEEK 24 HOURS

# **Uno Minda Limited**

UNO MINDA DRIVING THE NEW

CIN: L74899DL1992PLC050333 REGD. OFFICE: B-64/1, Wazirpur Industrial Area, Delhi-110052 CORP. OFFICE: Village Nawada Fatehpur, P. O. Sikandarpur Badda, Near IMT Manesar, Gurgaon (Haryana) - 122004 Tel.: +91 98102 38396

E-mail: investor@unominda.com, Website: www.unominda.com

### NOTICE

Shareholders of the Uno Minda Limited (The Company) are hereby informed that pursuant to the provisions of Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 ("the Rules"), as amended, from time to time, the Interim Dividend for the Financial Year 2018-19, which remain unclaimed for seven years as on 13 March, 2026 will be credited to Investor Education and Protection Fund (IEPF). The corresponding shares on which dividends were unclaimed for seven consecutive years will also be transferred as per the procedure set out in the Rules.

In compliance with the Rules, Individual notices are being sent to all the concerned shareholders whose shares are liable to be transferred to IEPF as per the aforesaid Rules, the full details of such shareholders is made available on the Company's Website

In this connection, please note the following:

Place: Gurugram (Haryana)

Date: 20 November, 2025

New Delhi

 In case you hold shares in physical form: Duplicate share certificate(s) will be issued and transferred to IEPF. The original share certificate(s) registered in your name(s) and held by you, will stand automatically cancelled.

 In case you hold shares in electronic form: Your demat account will be debited for the shares liable for transfer to the IEPF.

In the event valid claim is not received on or before 15 February, 2026 the Company will proceed to transfer the liable dividend and equity shares in favour of IEPF authority, without any further notice. Please note that no claim shall lie against the Company in respect of unclaimed dividend amount and shares transferred to IEPF pursuant to the said rules. It may be noted that the concerned shareholders can claim the shares and dividend from IEPF authority by making an application in the prescribed Form IEPF-5 online and sending the physical copy of the requisite documents enumerated in the Form IEPF-5, to the Nodal Officer of the Company.

For any clarification on the matter, please contact the undersigned. The request in this regard may please be sent through e-mail at investor@unominda.com or hard copy through courier or post at the corporate office address as mentioned above.

For Uno Minda Limited

(Tarun Kumar Srivastava) Company Secretary & Compliance Officer

epaper.financialexpress.com

**FINANCIAL EXPRESS** 



India Energy Week 2026 From India to the world Collaborating for a shared tomorrow.

75,000+ **Professionals** 

700+ 120+ Exhibiting Countries Companies Represented 6,500+Conference Delegates

Scan the QR Code to know more

550+ Conference Speakers

Narendra Modi

Prime Minister

# Connect with us: in #IndiaEnergyWeek | www.indiaenergyweek.com

# India seeks chipmaking parity with major producers by 2032

SANKALP PHARTIYAL November 20

**UNION MINISTER OF Elec**tronics and IT Ashwini Vaishnaw on Thursday said India's chipmaking capabilities are set to be at par with other major producers by 2032, an aggressive timeline that underscores the government's urge to bolster domestic manufacturing. "In case of semiconductors,

by 2031-2032 — in that timeframe we will be equivalent to what many of these countries are at today," Vaishnaw told Bloomberg's New Economy Forum in Singapore. "Then it'll be a race which will be very fair and a level playing field." The government's semi-

conductor push is in early stages, with the country boosting spending to attract designers and manufacturers.

It has used a \$10 billion



race which will be very fair and a level playing field

10 producers that'll fabricate

Japan, which are spending

silicon domestically. gramme, helping to bring about several assembly, pack-Still, India lags far behind aging and testing ventures. chip industry leaders Taiwan Micron Technology has set and South Korea and nations up a plant Gujarat and consuch as the US, China and

to build domestic chipmaking In case of semicapacities and woo the world's conductors, by biggest companies. 2031-2032 - inThe moves are aimed at

securing supplies of components that are key for future technologies from artificial intelligence to self-driving cars.

hundreds of billions of dollars

Three of India's chip facilities will start commercial production early next year, Vaishnaw said.

India's sweeping statebacked semiconductor drive coupled with its growing design ecosystem and deep bench of engineering talent — is helping the country reach a stage where private capital begins to flow in on its own, he said.

The government is hoping to attract chip giants in much the same way state-backed subsidies have encouraged Apple and its partners to manufacture iPhones in the country. —BLOOMBERG

## India, Israel agree on FTA terms

Target 10-fold rise in trade

**MUKESH JAGOTA** New Delhi, November 20

**INDIA AND ISRAEL** on Thursday signed the Terms of Reference (ToR) of a free trade agreement (FTA) that marks the start of negotiations to reach a deal.

The pact is expected to increase bilateral trade tenfold in the next decade.

"India and Israel have

decided to enter into negotiations for a FTA soon after havdocument. ing executed a bilateral invest-The ToR of a FTA formally ment treaty (BIT).

120+

Conference

Sessions

"And collectively FTA and BIT will open the doors for greater market access, flow of capital, investments and trade," commerce and industry minister Piyush Goyal said after the signing of ToR in Tel Aviv.

While ToR for India was signed by Goyal, from the Israeli side Minister of Economy and Industry of Israel

Nir Barkat initialled the

launches the negotiations, outlines the areas it will cover and sets a roadmap and timelines of negotiations. The BIT between India and Israel was signed in September.

"We will be aspiring for very large outcomes from our agreement. Rapid outcomes. We should aspire for a \$30-40 billion bilateral trade in the next five years and look in the next decade to grow 10

times," Goyal said. In 2024-25, India-Israel trade stood at \$3.62 billion. Israel's trade minister

Barkat said, "the foundation FTA that we have laid today will enable us to do things we would not have done with other countries."

He said the Israeli government is willing to help their companies to invest in India through help in raising capital to deploy in India and share even a bit of risk of that investment.

## Non-revision of national wage floors disappoints House panel

fund to fuel its chip pro-

glomerate Tata Group is one of

**FE BUREAU** New Delhi, November 20

**HAVE** LAWMAKERS **EXPRESSED** disappointment in the Union Labour Ministry failing to revise the non-binding National Floor Level Minimum Wage (NFLMW) for the last eight years.

These wage levels are expected to be revised biennially, in keeping with the price pressures in the economy and other factors. The National Committee on

GNFC



Rural Labour introduced NFLMW in 1991 as a nonstatutory measure to establish

a minimum wage structure and reduce wage disparities across India, factoring into the rise in the consumer price index for industrial workers (CPI-IW). Since it has only persuasive

value, the Centre can only request states and union territories to fix and revise the minimum wages for all scheduled employment in their respective domains, ensuring they are not below the NFLMW.

Sources who attended the Parliamentary Standing Committee on Labour and Employment said members across party lines, barring those from the ruling BJP, were critical of the labour ministry's "lapse" and asked it to submit in the next sitting, in writing, the reasons for not hiking the NFLMW, at its regular intervals.

"Considering that the increase in floor wages is only advisory only on the part of the central government, and doesn't require it to bear any financial burden, the ministry's lapse is inexplicable," said a trade union source.

### Looking to start exporting dairy items to Israel soon: Amul MD

PRESS TRUST OF INDIA Tel Aviv, November 20

AMUL IS EXPORTING ghee to Israel and will soon expand its dairy export portfolio to cater not just to the Indian diaspora but also to the local population, GCMMF Managing Director Jayen Mehta said.

Gujarat Cooperative Milk Federation Marketing (GCMMF) sells dairy products under the 'Amul' brand.

"We are exporting ghee here but we will soon expand to multiple other products which not just the Indian diaspora wants, but it can go into the mainstream market," Mehta told PTI.

He is part of the 60-member business delegation accompanying Commerce and Industry Minister Piyush Goyal here.

He added that the company is already exporting to Israel and now they are working to comply with the Kosher certifications requirements of Israel to expand its market here.



### **GUJARAT INTERNATIONAL FINANCETEC-CITY COMPANY LIMITED (GIFTCL)**

E-Tender Notice for Invitation to Bid for Selection of Services Provider for the Services

Gujarat International Finance Tec-City Company Limited invites bids from reputed, qualified, experienced and financially sound Service Provider for the following Services:

Name of Service	Project Duration	Online availability of Bid Document	Last Date of Online Bid Submission	Last Date of Physical Bid Submission
Appointment of agency for Application Management Services (AMS) of SAP S/4 HANA on RISE Platform for period of 5 at Years GIFT City(RFP Reference No.: GIFT/ICT/SC/2025/03)	05 (Five) years	21st November 2025 to 18th December 2025 up to 17:00 hrs	19th December 2025 up to 15:00 hrs	20th December 2025 up to 15:00 hrs

Bid document may be downloaded online from website at https://tender.nprocure.com

ସଂଚାରଣ ନିଗମ ଲଃ

( ଓଡିଶା ସରକାରଙ୍କ ଏକ ଉପକ୍ମ)

Tender fee of each Bid document is Rs.10,000/- payable in the form of Demand Draft/Banker's Cheque/Pay Order drawn in favor of "Gujarat International Finance Tec-City Company Limited" payable at Ahmedabad. For further details and updates please log on to our Website www.qiftquiarat.in

**Contact Person:** Sr. VP (Procurement & Contracts) **Managing Director & Group CEO** 

Tel: 079-61708300 E-mail: contract@giftgujarat.in **Gujarat International Finance Tec-City Company Limited (GIFTCL)** 

EPS Building No.49A, Block 49, Zone 04, Gyan Marg, GIFT City, Gujarat, INDIA. Pin-382050.

Tel.: +91 79 61708300, CIN:U65929GJ2007PLC051160

Regd. Office: OPTCL Tech Tower, Janpath, Saheed Nagar, Bhubaneswar-751007

NOTICE INVITING E-TENDER

Bids are invited under single stage two part system for the following tender:

**CORPORATION LIMITED** 

(A Government of Odisha Undertaking)

Nishant Thakur (HPAS) **Program Director** 

**HPDRRP Program** 

PROCUREMENT OF METHANOL GNFC intend to procure approx. 21,500 MT Methanol for its

**Gujarat Narmada Valley Fertilizers and Chemicals Limited** 

(An ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO 50001 Certified Company)

CIN: L24110GJ1976PLC002903, Website: www.gnfc.in

Regd. Office: P.O.Narmadanagar - 392015, Dist.: Bharuch (Gujarat), India

plant located at Bharuch, Dist. Bharuch Gujarat.

**OPEN TENDER NOTICE** 

For detailed specification and other terms, please visit web notice placed on our Web Site www.gnfc.in (in Tenders ---> **Tender Notice ---> Materials Management Department).** 

Last date and time for response: 22.11.2025 @ 12:00 hrs.

PUBLIC NOTICE							
Noti	Notice is hereby given that following share certificates of Force Motors Limited :						
Sr.	Folio No.	Name of	Certificate	Certificate Distinctive No(s).		No. of	Face
No.		Shareholder	No(s).	From	To	Shares	Value
1	R000622	RAJ KUMARI MALHOTRA	46592 To 46595	5884603	5884802	200	Rs. 10
	have been lost or misplaced and undersigned have applied to the Company to issue duplicate share certificate(s) for the said shares. Any person(s) who have claim in respect of the aforesaid						

shares should lodge claim for the same with the Company at its Registered Office: Mumbai

Pune Road, Akurdi, Pune - 411035 / Email ID: compliance-officer@forcemotors.com,

within 15 days from the date of this notice, else the Company will proceed to issue duplicate share certificate(s). Note: No claim shall lie against the Company after expiry of aforesaid notice period of 15 days. Date: 21.11.2025

Name of the claimant : Shashi Kanta Thapar Place: Gurugram



Bank of Maharashtra एक परिवार एक बैंक

बैंक ऑफ महाराष्ट्र

Mumbai Dadar Gokhale Road: Shop No. S/8, S/8-A, S/8-B, S/4, Daya Niwas, S K Bole Road, Dadar West, Mumbai - 400028, Tel: 8657472906, Email: bom42@mahabank.co.in AP3/42/Sai Agency/SARFAESI/2025-26 POSSESSION NOTICE (For Immoveable Property) [Rule 8 (i))

Whereas, the Authorized Officer of Bank of Maharashtra under Securitization & Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 & in exercise of powers conferred under Section 13 (4) and 13(12) of the said Act read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 has issued a Demand Notices dated 10.09.2025 under Section 13(2) calling upon M/s. Sai Agency Proprietor. Mr. Hiralal Dayaram Turshani. Mrs. Meena Heeralal Turshani (Guarantor) to repay the amount mentioned in the notice being Rs. 1,80,52,330.65 plus unapplied interest w.e.f. 01.09.2025 at 10.45% @ p.a. for 1st facility & Rs. 20,46,642.00 plus unapplied interest wef 01.09.2025 at 8.25 % pa for facilities No. 2 plus incidental expenses, costs, charges incurred / to be incurred within 60 days from the date of

receipt of the said notice. The Borrower mentioned hereinabove having failed to repay the outstanding amount, Notice is hereby given to the Borrowers and Guarantors mentioned hereinabove in particular and to the public in general that the Authorised Officer of Bank of Maharashtra has taken **Symbolic Possession** of the property described herein below in terms of the powers vested under the provisions of Section 13(4) of the said Act on this 20.11.2025.

The Borrower in particular, Guarantor and the Public in general is hereby cautioned not to deal with the properties and any dealings with the aforesaid properties will be subject to the charge of the Bank of Maharashtra for an amount mentioned above. The Borrowers attention is invited to the provisions of sub-section 8 of section 13 of the Act in respect of time available, to redeem the secured asset. **DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY** 

Collateral Security:- Flat No. 203, 2nd Floor Regency Garden, Near Sapna Garden Ulhasnagar -3 Thane Ulhasnagar, Maharashtra - 421002.

Date: 20.11.2025 Place: Mumbai

(Mr. Siddhesh Indulkar) **Authorized Officer & Chief Manager** Bank of Maharashtra

### GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH, DEPARTMENT OF REVENUE Disaster Management Cell-HPSDMA

Program Management Unit

Himachal Pradesh Disaster Risk Reduction and Preparedness (HIIP DRRP) Program

HP Secretariat, Shimla, Phone:- 0177 2880320/ E-mail:- sdma hp[at]nicdot]in RFP Number Rev (DMC) (F) (-50/2023 DRRP (AFD-III) PFM

Date: 19th November 2025

Request of proposals for hiring services of consulting firms

Request for Proposals (RFPs) are invited for hiring services for Public Financial Management (PFM) Systems, Independent Verification Agency (IVA), and Gender Studies under the HP Disaster Risk Reduction & Preparedness (HP DRRP) Program of the Disaster Management Cell (Rev DM), Himachal Pradesh. The detailed RFP for PFM will be available on 22nd November 2025, whereas the remaining RFPs for IVA and Gender are likely to be uploaded in November/December 2025 on the https://hptenders.gov.in portal

Interested parties may submit their applications online. All interested firms are requested to regularly visit our website at https://hpsdma.nic.in/ and https://hptenders.gov.in for updates. The undersigned reserves the right to reject any/ all the applications without assigning any reason thereof. Sd/-

No. 1514/HP

**Uno Minda Limited** 

CIN: L74899DL1992PLC050333 REGD. OFFICE: B-64/1, Wazirpur Industrial Area, Delhi-110052

CORP. OFFICE: Village Nawada Fatehpur, P. O. Sikandarpur Badda, Near IMT Manesar, Gurgaon (Haryana) - 122004 Tel.: +91 98102 38396 E-mail: investor@unominda.com, Website: www.unominda.com

NOTICE

Shareholders of the Uno Minda Limited (The Company) are hereby informed that pursuant to the provisions of Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 ("the Rules"), as amended, from time to time, the Interim Dividend for the Financial Year 2018-19, which remain unclaimed for seven years as on 13 March, 2026 will be credited to Investor Education and Protection Fund (IEPF). The corresponding shares on which dividends were unclaimed for seven consecutive years will also be transferred as per the procedure set out in the Rules.

In compliance with the Rules, Individual notices are being sent to all the concerned shareholders whose shares are liable to be transferred to IEPF as per the aforesaid Rules, the full details of such shareholders is made available on the Company's Website www.unominda.com

In this connection, please note the following:

i. In case you hold shares in physical form: Duplicate share certificate(s) will be issued and transferred to IEPF. The original share certificate(s) registered in your name(s) and held by you, will stand automatically cancelled.

 In case you hold shares in electronic form: Your demat account will be debited for the shares liable for transfer to the IEPF.

In the event valid claim is not received on or before 15 February, 2026 the Company will proceed to transfer the liable dividend and equity shares in favour of IEPF authority, without any further notice. Please note that no claim shall lie against the Company in respect of unclaimed dividend amount and shares transferred to IEPF pursuant to the said rules. It may be noted that the concerned shareholders can claim the shares and dividend from IEPF authority by making an application in the prescribed Form IEPF-5 online and sending the physical copy of the requisite documents enumerated in the Form IEPF-5, to the Nodal Officer of the Company.

For any clarification on the matter, please contact the undersigned. The request in this regard may please be sent through e-mail at investor@unominda.com or hard copy through courier or post at the corporate office address as mentioned above. For Uno Minda Limited

Place: Gurugram (Haryana) Date: 20 November, 2025 Company Secretary & Compliance Officer

(Tarun Kumar Srivastava)

epaper.financialexpress.com



#### E-Tender **Tender Description: Estimated Cost** CPC-Construction of 220kV SC line through underground Rs. 287,47,40,673/cable with one spare cable from 400/220/132/33kV GSS Mendhasal to 220/132/33kV GIS GSS Chandaka-B along with 01 number of 220kV AIS bay extension at GSS Mendhasal & 01 number of 220kV GIS bay extension at Chandaka-B on turnkey contract basis in e-tendering mode only. Procurement of different types of testing & Rs. 29,75,18,479/-40/2025-26 measuring equipment for various field units of OPTCL in e-tendering mode only. Design, Engineering, supply, erection, testing and Rs. 9,32,81,92,522.32/commissioning of i)2x500MVA, 400/220kV AIS S/S with SAS at Basudevpur with associated ii) 400kV D/C LILO Line from 400kV Kaniha-Bisra D/C line (CKT-I &II) to proposed 400/220kV GSS at Basudevpur, iii) 220kV LILO in D/C from TTPS-Joda line to proposed S/S at Basudevpur, iv) 220kV D/C line from 220/132/33kV GSS, Turumunga to proposed 400/220kV Grid S/S at Basudevpur on EPC Contract basis in e-tendering mode only. Complete set of bidding documents are available at www.optcl.co.in. HIPR-44/2025-26 CAD-2388

आईबीबीआई (परिसमापन) प्रक्रिया विनियम, 2018 के विनियम 37ए के अंतर्गत एनआरआरए (आसानी से प्राप्त न होने वाली संपत्तियां) के समनुदेशन हेतु रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) आमंत्रित की जा रही है।

मैक्रो कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड के मामले में -परिसमापन में

(CIN-U93000DL2014PTC264313)

आईबीबीआई (परिसमापन प्रक्रिया) विनियम, 2016 (आईबीसी, 2016 के दायरे में) के विनियम 44ए के साथ पठित विनियम 37ए के अंतर्गत मैक्रो कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड के मामले में निम्नलिखित आसानी से प्राप्त न होने वाली संपत्तियों ("एनआरआरए") के समन्देशन हेत् रुचि की अभित्यक्ति (ईओआई) आमंत्रित की जा रही हैं। ये संपत्तियां "जहां है, जैसा है, जो है, जो भी है और बिना किसी सहारा के आधार पर'' होंगी। परिसंपत्तियों का विवरणः

IA No. 4324/2020: अधिमान्य लेनदेन के लिए धारा 43 के अंतर्गत आवेदन (र.)

 IA No. 4111/2020: घोखाघडी वाले लेनदेन के लिए घारा 66 के अंतर्गत आवेदन (रु. 22.01.93.384 /-) [

3. IA No. 5206/2023: कॉर्पोरेट देनदार और पैटेल टेक्नोलॉजीज के निदेशकों के विरुद्ध स्थगन के उल्लंघन के लिए आवेदन

 IA 2366/2020: प्रमोटरों और अन्य द्वारा स्थगन के जल्लंघन के लिए धारा 60(5)(बी) और 74 (आईबीसी) के अंतर्गत आवेदन अपील संख्या 31 / एनडी / 2023: पॅंटेल टेक्नोलॉजीज के परिसमापक द्वारा दावा अस्वीकृति.

के विरुद्ध धारा 42 के अंतर्गत आवेदन। इच्छुक पक्ष 20 दिसंबर, 2025 तक प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं। संबंधित दस्तावेज उचित जॉब-पड़ताल के लिए इच्छुक पक्षों के साथ साझा किए जाएँगे। यह असाइनमेंट IBC, 2016 के प्रावधानों, उसके नियमों और प्रक्रिया दस्तावंज के अधीन है। अधिक जानकारी के लिए, https://insolvencyandbankruptcy.in/public-announcement/macro-

commerce-pvt-ltd/ पर प्रकाशित प्रक्रिया दस्तावेज देखें। नोट: परिसमापक एससीसी के परामर्श से किसी भी या सभी प्रस्तावों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और किसी भी आवेदक का चयन करने के लिए बाध्य नहीं है ।

> एसडी/ अनिल कुमार शर्मा- परिसमापक

मैको कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड- परिसमापन में आईपी पंजीकरण संख्या IBBI/IPA-003/IPA-ICAI-N-00218/2019-2020/12514 पताः एएए इन्सॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स एलएलपी, #64, पहली मंजिल, ओखला एस्टेट, फंज ।।।, मोदी मिल्स के पीछे, नई दिल्ली-110020

ईमेल आईडी: macro.commerce@aaainsolvency.com; anilsharma@aaainsolvency.com दिनांक : 21.11.2025 संपर्का संख्या: +91 9971101941 स्थानः नई दिल्ली

### ☐ HDFC BANK We understand your world

#### विशेष परिचालन विभाग एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, भूतल, गुलाब भवन, 6, बहादुर शाह जफर मार्ग, आईटीओ, नई दिल्ली 110002

कब्जा सुचना (अचल संपत्ति के लिए) (प्रतिभृति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8(1) के साथ पठित परिशिष्ट IV के अनुसार)

जैसाकि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002) के अंतर्गत एचडीएफसी बैंक लि. के अधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने दिनांक 18.07.2025 को मांग सूचना जारी कर ऋणधारकों मेसर्स लक्ष्मी सेल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, द्वारा उसके निदेशक/बंधककर्ता/जमानतदार श्री रवि कुमार अग्रवाल, श्री प्रियांशु गुप्ता, श्री अपार गर्ग, और श्री तुषार गर्ग, द्वारा उसके बंधककर्ता/जमानतदार को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर 15.07.2025 तक रु. 11,75,65,032.81/- ( केवल ग्यारह करोड़ पिचहत्तर लाख पैंसठ हजार बत्तीस रुपये और इक्यासी पैसे) की मांग सूचना में उल्लिखित राशि और दिनांक 16.07.2025 से उस पर ब्याज के साथ–साथ भविष्य के ब्याज और शुल्कों के भुगतान का निर्देश दिया था।

ऋणधारकों/बंधककर्ता/गारंटर उक्त राशि का भुगतान करने में विफल रहे, अतः ऋणधारकों/बंधककर्ता/गारंटर तथा सार्वजनिक रूप से आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने 19 नवंबर, 2025 को उत्तर प्रदेश में उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के साथ पठित उक्त नियमों के नियम 8 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया है। एतद्वारा ऋणधारकों बंधककर्ता, विशेष रूप से एवं सामान्य जनता को सतर्क किया जाता है कि वे संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रकार का व्यवहार न करें, तथा संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रकार का व्यवहार राशि रु. 11,75,65,032.81/- ( केवल ग्यारह करोड़ पिचहत्तर लाख पैंसट हजार बत्तीस रुपये और इक्यासी पैसे) और 16.07.2025 से उस पर ब्याज तथा उपर्युक्त रूप में खर्च और शुल्क आदि के लिये एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारकों का ध्यान सुरक्षित संपत्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय से संबंधित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

क्र. सं.1. संपत्ति का विवरण: संपूर्ण प्लॉट-7, क्षेत्रफल 299.96 वर्ग गज अर्थात 250.79 वर्ग मीटर, जो मोहल्ला संयुक्त विकास योजना, नगर पालिका परिषद पिलखुआ, परगना डासना, तहसील धौलाना, जिला हापुड़, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में स्थित खसरा/ गाटा/खेत/भूमि सं. 2488 और 2489 का हिस्सा है, क्षेत्रफल-250.79 वर्ग मीटर; क्र. सं.2. संपत्ति का विवरणः संपूर्ण संपत्ति, क्षेत्रफल 304 वर्ग गज अर्थात 254.26 वर्ग मीटर, जो मोहल्ला संयुक्त विकास योजना, नगर निगम पालिका परिषद पिलखुआ, परगना डासना तहसील धौलाना जिला हापड उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में स्थित खसरा/गाटा/खेत/भमि सं 2488 और 2489 का हिस्सा है, क्षेत्रफल-254.79 वर्ग गज; क्र. सं.3. संपत्ति का विवरणः संपूर्ण संपत्ति, क्षेत्रफल 300 वर्ग गज अर्थात 250.92 वर्ग मीटर है जो मोहल्ला संयुक्त विकास योजना, नगर निगम पालिका परिषद पिलखुआ, परगना डासना, तहसील धौलाना, जिला हापुड़, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में स्थित खसरा/गाटा/खेत/भूमि सं. 2488 और 2489 का हिस्सा है,क्षेत्रफल-300 वर्ग गज; क्र. सं.4. संपत्ति का विवरणः संपूर्ण संपत्ति, जिसका क्षेत्रफल 288.50 वर्ग गज अर्थात 241.30 वर्ग मीटर है, जो मोहल्ला संयुक्त विकास योजना, नगर निगम पालिका परिषद पिलखुआ, परगना डासना, तहसील धौलाना, जिला हापुड़, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में स्थित खसरा/गाटा/खेत/भूमि संख्या 2488 और 2489 का हिस्सा है, क्षेत्रफल-288.50 वर्ग गज; कब्जे की तारीख और समयः 19.11.2025 समय दोपहर 11.00

स्थानः उत्तर प्रदेश दिनांकः 19/11/2025 प्राधिकृत अधिकारी, एचडीएफसी बैंक लि.

आस्था फिनवेस्ट लिमिटेड (CIN: U74899DL1995PLC069240) के संबंध में मास्टर डायरेक्शन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी - स्केल बेस्ड रेगुलेशन) डायरेक्शन्स, 2023 डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशन के पैरा 42.3 के अनुसार संयुक्त सार्वजनिक सूचना **पंजीकृत कार्यालय:** 101-102, 1ला तल, सागर प्लाजा-2, प्लॉट नं. 27, रोड नं. 44, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, रानी

बाग, पीतमपरा, दिल्ली-110034 यह सार्वजनिक सचना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में पंजीकरण प्रमाण पत्र सं. इ.14.02130, दिनांक 8 मार्च, 2002 वे तहत पंजीकृत एक गैर-प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर-जमा स्वीकार करने वाली एनबीएफसी, आस्था फिनवेस्र लिमिटेड ("कंपनी"), के साथ इसके प्रवर्तकों, शेयरधारकों और निदेशकों, जिनमें **श्रीमती निशा गुप्ता, श्री सुरेश** चंदर गुप्ता, श्री नरसिंह दास गुप्ता, श्रीमती आस्था गुप्ता, श्रीमती कमला गुप्ता, श्री अवधेश गुप्ता शामिल हैं, के साथ-साथ इक्विटी और प्रेफरेंस शेयरधारकों आनंद पाइप्स प्रा. लि., जगत पॉलीमर्स प्रा. लि., केसर बायोटेक प्रा. लि., सालवानिया एक्सिम प्रा. लि., उरुश्रुति एस्टेट्स प्रा. लि., वीवीएसए ट्रेडर्स प्रा. लि. मोजेक व्यापार प्रा. लि., और श्रीमती निशा गुप्ता, श्रीमती कमला गुप्ता तथा श्री सुरेश चंदर गुप्ता के इस्तीफे के बाद शामिल हुए नए निदेशकों, अर्थात श्री अवधेश गुप्ता और श्री स्वदेश गुप्ता, के द्वारा संयुक्त रूप से जारी की जा रही है।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के समक्ष 7% अनिवार्य परिवर्तनीय प्रेफरेंस शेयरों ("सीसीपीएस") के निर्गम और श्री अवधेश गुप्ता की नियुक्ति को आपके रिकॉर्ड में दर्ज करने हेतु कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त करने के लिए एक आवेदन दायर किया गया था, और तत्पश्चात सीसीपीएस को कंपनी के इक्विटी शेयरों में परिवर्तित करने और श्रीमती निशा गुप्ता, श्रीमती कमला गुप्ता तथा श्री सुरेश चंदर गुप्ता के इस्तीफे तथा श्री स्वदेश गुप्ता की नियुक्ति के माध्यम से प्रबंधन में बदलाव के लिए अनुमोदन मांगा गया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सहर्ष अपना अनुमोदन प्रदान कर दिया है।

कंपनी और उसके शेयरधारक यह रिकॉर्ड में दर्ज कराना चाहते हैं कि यह लेनदेन अधिग्रहण, प्राप्ति या नियंत्रण वे हस्तांतरण की श्रेणी में नहीं आता है, और इसलिए सामान्य तौर पर समाचार पत्र में प्रकाशन के लिए कोई वैधानिक आवश्यकता नहीं है। हालांकि, चूंकि आरबीआई अनुमोदन आदेश में विशेष रूप से मास्टर डायरेक्शन्स के पैरा 42.3 के तहत प्रकाशन का निर्देश दिया गया था, इसलिए यह सूचना उसी के अनुपालन में जारी की जा रही है। यदि किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो, वह इस सूचना की तारीख से 30 दिनों के भीतर निम्नलिखित पतों पर कारणों सहित सुचित कर सकता है:

आस्था फिनवेस्ट लिमिटेड

101-102, 1ला तल, सागर प्लाजा-2, प्लॉट नं. 27, रोड नं. 44, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, रानी बाग, पीतमपुरा दिल्ली-110034

नियामकः महाप्रबंधक,

गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग,

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, 6, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 यह सार्वजनिक सूचना कंपनी द्वारा जारी की जा रही है।

स्थानः दिल्ली

दिनांक: 21 नवंबर, 2025

आस्था फिनवेस्ट लिमिटेड के लिए (निदेशक

#### ई—नीलामी बिक्री सचना (आईबीबीआई (परिसमापन प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 32 और 37ए के तहत पेसर सिक्योर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड – परिसमापन में (सीआईएन: U74920DL2011PTC228319)

गिएसएसपीएल माननीय एनसीएलटी, प्रधान खंडपीठ, नई दिल्ली दिनांक 09.06.2025 के आदेश के अनुसार परिसमापन प्रक्रिया से गुजर रहा है (माननीय एनसीएलटी ने दिनांक 24.07.2025 के आदेश के तहत 09.06.2025 से 24.07.2025 तक की अवधि को बाहर रखा है), दिनांक 24.07.2025 के आदेश को एनसीएलटी की वेबसाइट पर 05.08.2025 को अपलोड किया गया था। पीएसएसपीएल कें परिसमापक एतद्ववारा यहां उल्लिखित नीलामी कार्यक्रम के अनुसार 'जैसा है, जो कुछ भी है और बिना सहारा के' आधार पर पीएसएसपीएल की परिसंपत्तियों की ई—नीलामी बिक्री में भाग लेने के लिए पात्र बोलीदाता (बोलीदाताओं को) आमंत्रित करता है, जो यहां उल्लिखित नीलामी कार्यक्रम के अनुसार और बोली दस्तावेज में सुचीबद्ध विस्तृत नियमों, शर्तों और प्रक्रिया के अनुसार है, जिसे https://ibbi.baanknet.com/eauction-ibbi/home से डाउनलोड किया जा सकता है

लॉट सं.	परिसंघत्तियों का विवरण	आरक्षित मूल्य (रू. लाख में)	ईएमडी (रू. लाख में)	वृद्धिशील मृल्य राशि (रू. लाख में)
1.	कॉर्पोरेट देनदार के प्लांट और मशीनरी और फाइनेंशियल एसेट्स (जल्दी से वसूल न होने वाली एसेट्स)		14,75,000	1,00,000
2.	कॉर्पोरेट देनदार का संयंत्र और मशीनरी	1,16,179	11,000	5,000
3.	वित्तीय संपत्तियाँ (आसानी से प्राप्त नहीं होने वाली संपत्तियाँ)	1,46,37,720	14,60,000	1,00,000

नॉट 1 को प्राथमिकता दी जाएगी और अगर लॉट 1 के लिए बोलिया मिलती हैं. तो नॉट 2 और लॉट 3 की नी लामी वापस ले ली जाएगी ।

ई–ऑक्शन शेड्यूल

बिंड डॉक्यूमेंट्स, इंस्पेक्शन (परिसमापक को पहले से बताकर) और EMD जमा करने की आखिरी तारीख / समय – 8 दिसंबर 2025 (सोमवार) शाम 5:00 बजे तक । ई—ऑक्शन की तारीख और समय— 10 दिसंबर 2025 (बुधवार) सुबह 11.00 बजे से शाम 4:00 बजे तक (5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ)

• जो लोग बोली लगाना चाहते हैं, उन्हें ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म https://libbi.baanknet.com/eauctionibbi/home पर अपनी लॉगिन आईडी बनानी होगी। जरूरी ढॉक्यमेंट्स ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म पर अपलोड करने होंगे और EMD ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म पर ई-वॉलेट के जरिए जमा करनी होगी। किसी भी क्लैरिफिकेशन के लिए, https://lbbi.baanknet.com/eauction-lbbi/home पर मौजूद अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ) और गाइडेंस डॉक्यूमेंट्स देखे जा सकते हैं । जो लोग बोली लगाना चाहते हैं, ये ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म के बारे में किसी भी मदद के लिए फोन: +91 8291220220 या ईमेल आईडी. support.baanknet@psballiance.com पर भी संपर्क कर सकते हैं।

। होने वाले बिडर्स को इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शन प्लेटफॉर्म के जरिए IBC, 2016 के सेक्शन 29क के तहत एलिजिबिलिटी का डिक्लेरेशन समेत जरूरी डॉक्युमेंटस जमा करने होंगे । कृपया ध्यान दें कि ऑक्शन पुरा होने के बाद लिक्विडेटर IBC, 2018 के सेक्शन 29क के तहत बिडर्स की एलिजिबिलिटी वेरिफाई करेगा और अगर बिडर्स अयोग्य पाया जाता है तो बिडर्स की EMD जब्त कर ली जाएगी।

र् ई-ऑक्शन में हिस्सा लेने वाले बिडर्स को बिड प्रोत्तेल डॉक्युमेंट पढ़ लिया हुआ माना जाएगा और उन्होंने सभी नियम और शर्ते मान ली हैं, जिसमें बिड अमाउंट के पेमेंट के नियम और शेड्यूल और बिड प्रोसेंस डॉक्युमेंट की शर्तों को न मानने पर जमा की गई रकम ज़ब्त करना शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है।

• GST और दूसरे लेवी, टैक्स (अगर कोई हो) रिजर्व प्राइस / फाइनल सेल प्राइस वगैरह के अलावा बिंडर को एक्स्ट्रा देने होंगे।

पारुल गोयल दिनांक 20 .11,2025 परिसमापक, पेसर सिक्योर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (परिसमापन में)। पंजीकरण सं.:IBBI/IPA-001/IP-P-02541/2021-2022/13900 स्थान: नई दिल्ली

## "IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

#### (a) pnb Housing पंजी. ऑफ: 9 वी मंजिल, अंतरिक्ष भवन, 22 के.जी. मार्ग, नई दिही-110001, फोन : 011-23357171, 23357172, 23705414 वेबसाईट: www.pnbhousing.com. शाखा कार्यात्तय पत्ता : प्रथम तल, वाणिज्यिक भवन संख्या-199, हीरो शो रूम के पास बस स्टैंड के पासं, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश-22500 कब्जे संबंधी सूचना (नियम 8(1) एवं परिशिष्ट-IV के अनुसार अचल संपति के लिए)

जबकि नीचे हस्ताक्षरकर्ता, वितीय आस्तियों के प्रतिभूतिकर और पूननिर्माण के तहत पीएनबी हाउशिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते और प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 के प्रवर्तन के नियम 8(1) के अनुपालन में. और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदेश किया का प्रयोग करते हुए, प्रत्येक खाते के सामने उद्घिखत तारीख को मांग नोटिस जारी करते हैं, जिसमें संबंधित उधारकर्ता/ओं नोटिस की तारीख/उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर प्रत्येक खाते के सामने उद्घेखित राशि चुकाने के लिए कुछा जाता है। उधारकर्ता/श्रूणकर्ताओं द्वारा राशि वापस करने में असफत रहने के कारण, उधारकर्ता / ऋणकर्ताओं तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि नीचे हस्ताक्षरकर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उसे प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रत्येक खाते के सामने उड्डेखित तारीखी को उक्त नियमों के नियम 8 के साथे नीचे वर्णित संपत्ति/संपत्तियों पर कब्जा कर लिया है । विशेष रूपसे उधारकर्ता/ओं और आम जनता को एतद्वारा चेतावनी दी जातीहैं कि वे संपत्ति/संपत्तियों के साथे कोई भी लेन-देन न करें और संपत्ति/संपत्तियों के साथ कोई भी लेन-देन ऋण समझौते के अनुसार राशि और उस पर ब्याज के लिए पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा उधारकर्ताओं का ध्यान सुरक्षित परिसंपतियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की और आकर्षित किया जाता है।

त्रण खाता संख्या(ओं) उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/ मांग मांग सूचना में आज कब्जा लेने गिरवी रखी गई संपत्ति का विवरण एचओय्/आरबी गारंटर/कानूनीवारिस का नाम नोट्रिस की तिथि तक राशि की विवि/कब्जे आवासीय का वह पूरा हिस्सा, प्लॉट नंबर बी 15 ए, खसरा श्रीमती तबस्सुम तबस्सुम की तिथि रु.19.38,669.65 (रूपये का प्रकार नंबर 71 और 71 ए का हिस्सा, विलेज रहीम नगर दुदौली, आरबी / 0524/ 08.08. उन्नीस लाख अइतीस 2025 हजार कह सौ उनसठ (सांकेतिक) जिला लखनऊ, तहसील और जिला तखनऊ, तखनऊ, तखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226020. (उधारकर्ती) और 1252738 श्री मोहम्मद शरीफ बी.ओ.: बाराबंकी (सह-उधारकर्ता) दिनांक : 21.11.2025 | स्थान : बाराबंकी एसडीआई-प्राधिकृत अधिकारी. पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

सूचना कंपनी रजिस्ट्रार, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय

के समक्ष सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 13 की उपधारा (3) और सीमित दायित्व भागीदारी नियम, 2009 के नियम 17 के मामले में

पुष्पश्री विनीमय एलएलपी (एलएलपीआईएन ऍएजी-0042) जिसका पंजीकृत कार्यालय 315, द अरालियास, डीएलएफ गोर्ल्फ लिंक्स, डीएलएफ सिटी, फेज V, गुडगांव, हरियाणा-122009, भारत ("एलएलपी") पर है, के मामले में एतदृद्वारा द्वारा आम जनता को सुचना दिया जाता है कि एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, 2008 की धारा 13 (3) के तहत एलएलपी के पंजीकृत कार्यालय के स्थान को "हरियाणा राज्य" से "एनसीटी दिल्ली"में बदलने के संबंध में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) दिल्ली और हरियाणा को एक सूचना दाखिल करने का प्रस्ताव कर रही है।

कोई भी व्यक्ति जिसका हित एलएलपी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना है, वह अपने हितों की प्रकृति और विरोध के आधारों को बताते हुए एक हलफनामे द्वारा समर्थित अपनी आपत्तियों को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, एनसीटी दिल्ली एवं हरियाणा को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 21 (इक्कीस) दिनों के भीतर 04वीं मंजिल, आईएफसीआई टॉवर, 61, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019 के पते पर, पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है, जिसकी एक प्रति एलएलपी को उसके पंजीकृत कार्यालय के पते पर नीचे उल्लिखित पते पर भेजें।

"315, द अरालियास, डीएलएफ गोल्फ लिंक्स, डीएलएफ सिटी, फेज V, गुड़गांव, हरियाणा-122009, भारत"

पुष्पश्री विनिमय एलएलपी की ओर से हस्ताक्षरकर्ता/-(वरदान अग्रवाल) नामित भागीदार

दिनांकः 21 नवंबर, 2025 डीपीआईएन–03503077

### ऊनो मिंडा लिमिटेड

HE BUSINESS DAILY

CIN: L74899DL1992PLC050333

निकट आईएमटी मानेसर, गुड़गांव (हरियाणा) -122004

UNO MINDA पंजीकृत कार्यालयः बी-64/1, वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली-110052 कॉपोरेंट कार्यालयः ग्राम नवादा फतेहपुर, पो.ऑ. सिकंदरपुर बद्दा,

दुरभाष: +919810238396 ई-मेलः investor@unominda.com वेबसाइटः www.unominda.com

### सूचना

ऊनो मिंडा लिमिटेड (कंपनी) के शेयरधारकों को सुचित किया जाता है कि समय-समय पर संशोधित विनिधानकर्ता शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा संपरीक्षा, अन्तरण एवं प्रतिदाय) नियम, 2016 ('नियम') के नियमों के अनुसार, वित्त वर्ष 2018-19 के लिए अंतरिम लाभांश, जो 13 मार्च, 2026 तक सात वर्ष तक अदावाकृत रहा है, उसे आईईपीएफ में क्रेडिट किया जाएगा। जिन शेयरों पर लगातार सात साल तक लाभांश अदावाकृत रहा है, उन्हें भी नियमों में बताए गए तरीके से अन्तरित किया जाएगा।

नियमों के अनुसार, उन सभी संबंधित शेयरधारकों को अलग-अलग नोटिस भेजे जा रहे हैं जिनके शेयर ऊपर बताए गए नियमों के अनुसार आईईपीएफ में अन्तरित किए जा सकते हैं, ऐसे शेयरधारकों की पूरी जानकारी कंपनी की वेबसाइट www.unominda.com पर उपलब्ध है। इस बारे में, कृपया नीचे दी गई बातों पर ध्यान दें:

i. यदि आपके पास भौतिक प्रारूप में शेयर हैं: डुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी किए जाएंगे और आईईपीएफ में अन्तरित किए जाएंगे। आपके नाम पर पंजीकृत और आपके द्वारा धारित मूल शेयर प्रमाणपत्र अपने आप

ii. यदि आपके पास इलेक्टॉनिक प्रारूप में शेयर हैं: आपके डीमैट खाते से उन शेयरों के लिए पैसे डेबिट कर दिए जाएंगे जिन्हें आईईपीएफ में अन्तरित किया जाना है।

यदि 15 फरवरी, 2026 को या उससे पहले वैध दावा नहीं मिलता है, तो कंपनी बिना किसी और नोटिस के, आईईपीएफ प्राधिकरण के पक्ष में लाभांश और इक्विटी शेयर अन्तरित कर देगी। कृपया ध्यान दें कि इन नियमों के अनुसार, अदावाकृत लाभांश राशि और आईईपीएफ को अन्तरित किए गए शेयरों के संबंध में कंपनी के खिलाफ कोई दावा नहीं होगा। यह ध्यान दिया जाए कि संबंधित शेयरहोल्डर आईईपीएफ प्राधिकरण से शेयर और लाभांश का दावा निर्धारित प्रपत्र आईईपीएफ-5 में ऑनलाइन आवेदन करके और प्रपत्र आईईपीएफ-5 में दिए गए आवश्यक दस्तावेजों की भौतिक प्रति कंपनी के नोडल अधिकारी को भेजकर कर सकते हैं।

इस मामले पर किसी भी स्पष्टीकरण के लिए, कृपया अधोहस्ताक्षरी से संपर्क करें। इस बारे में निवेदन कृपया investor@unominda.com पर ई-मेल से या ऊपर बताए गए कॉपोरेंट कार्यालय के पते पर कृरियर या पोस्ट से हार्ड कॉपी भेजी जा सकती है।

ऊनो मिंडा लिमिटेड के लिए (तरुण कुमार श्रीवास्तव)

स्थान : गुड़गांव (हरियाणा) तिथि : 20 नवंबर, 2025 कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी



हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस कॉपोरेंट कार्यालयः नंबर 167-169, दूसरी मंजिल, अन्ना सलाई, सैदापेट, चेन्नई - 600015 शाखा कार्यालयः प्रथम 124/ओ/64, पापुलर धर्म कांटा के पास, गोविंद नगर, कानपुर- 208006

> आरएलएम - श्री ब्रजेश कुमार अवस्थी 99183001885, सीएलएम - सोनम मिश्रा 9368111464, आरआरएम - श्री पुष्कर अवस्थी 9453043399, सीआरएम - मितेश मिश्रा 9555269296

सांकेतिक कब्जे की सूचना जैसा कि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभृतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 की संख्या 3) के तहत

हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते और प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर राशि का भुगतान करने के लिए कहते हुए कर्जदार (इसके बाद कर्जदार और गारंटरों को सामृहिक रूप से 'कर्जदार' के रूप में संदर्भित) को प्रत्येक खाते के सामने उल्लिखित तिथियों पर एक मांग सूचना जारी की थी। कर्जदारों द्वारा राशि चुकाने में विफल रहने पर, विशेष रूप से कर्जदारों और सामान्य रूप से जनता को नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा 4 के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में नीचे वर्णित संपत्ति पर प्रत्येक खाते के सम्मुख उल्लिखित तिथियों पर कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से कर्जदार∕गारंटर और सामान्य रूप से जनता को आगाह किया जाता है कि वे संपत्ति के साथ लेनदेन न करें और संपत्ति के साथ कोई भी लेनदेन राशि तथा उस पर होने वाले आकस्मिक खर्च, लागत, शुल्क आदि सहित उपरोक्त राशि पर संविदात्मक दर पर भावी ब्याज के लिए हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा।

प्रतिभत आस्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय-सीमा के सम्बन्ध में कर्जदार का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

क्र. आवेदन संख्या/कर्जदारों/गारंटरों का नाम <sup>मांग सूचना की तिथि</sup> बकाया राशि

L	स.		कब्ज का तिथ		सम्पत्ति अशोक नगर घाटमपुर कानपुर, कानपुर, मेट्रो,
	1.	आवेदन संख्याः UP/KNP/KANP/A00000577 श्री शकुंतला शर्मा श्री अमित शर्मा श्रीमती उमा शर्मा सभी निवासीः अशोक नगर घाटमपुर कानपुर, कानपुर, अर्बन, कानपुर, उत्तर प्रदेश, भारत – 209206	14/08/2025 15.11.2025 सांकेतिक	रु. 1234116/- 13.08.2025 तक तथा उस पर ब्याज	कानपुर, उत्तर प्रदेश, भारत - 209206 क्षेत्रफल -47 वर्ग मीटर सीमाएं: पूर्वः फौजी सचान का घर, पश्चिमः कानपुर हमीरपुर रोड, उत्तरः खुला प्लॉट अतुल, दक्षिणः शिवआसरे का घर
	2.	आवेदन संख्याः UP/KNP/KANP/A00D001250 श्री दिनेश चंद्र सिंह श्री प्रगेश सिंह श्रीमती प्रेमा देवी सभी निवासीः 324 बी मछरिया नौबस्ता, कानपुर नगर, अर्बन, कानपुर, उत्तर प्रदेश, भारत – 208021	08/08/2025 18.11.2025 सांकेतिक	रु. 1060942/- तिथि 05.08.2025 तक तथा उस पर ब्याज	सम्पत्ति ईडब्ल्यूएस आवास विकास योजना 324 बी नौबस्ता, कानपुर नगर, अर्बन, कानपुर, उत्तर प्रदेश, भारत – 208021 क्षेत्रफल-150.668 वर्ग मीटर सीमाएं: पूर्व-20 फीट रोड, पश्चिम- मकान नं. 324 का हिस्सा, उत्तर- मकान नं. 324 का हिस्सा, दक्षिण- मकान नं. 324 का हिस्सा
	3.	आवेदन संख्याः UP/KNP/KANP/A00001611 श्री सुरेंद्र सुरेंद्र श्री शशि शशि श्री विनीत शुक्ला सभी निवासीः 144 बटौर कानपुर, कानपुर नगर, कानपुर, मेट्रो, कानपुर, उत्तर प्रदेश, भारत- 208022	08/08/2025 19.11.2025 सांकेतिक	रु. 785673/- तिथि 05.08.2025 तक तथा उस पर ब्याज	सम्पत्ति आराजी नंबर 25, कानपुर नगर, कानपुर, मेट्रो, कानपुर, उत्तर प्रदेश, भारत – 208001 क्षेत्रफल-41.805 वर्ग मीटर सीमाएं: पूर्व-4.57 मीटर चौड़ी सड़क पश्चिम-आराजी का कुछ भाग, उत्तर-आराजी का कुछ भाग, उत्तर-आराजी का कुछ भाग दक्षिण-4.57 मीटर चौड़ी सड़क
	4.	आवेदन संख्याः UP/KNP/KANP/A000001739	08/08/2025 19.11.2025	रु. 489052∕-	संपत्ति प्लॉट संख्या 45, आराजी 95 दुबियाना शलभराजपुर कानपुर नगर, शवराजपुर, शहरी,

7.	UP/KNP/KANP/A000001739 श्री तुलसीराम तुलसीराम श्रीमती मुन्नी देवी श्री अमित कुमार सभी निवासी: 31 मंगरौल मुस्तकौल, कानपुर नगर, मेट्टो, कानपुर, उत्तर प्रदेश, भारत – 285204	19.11.2025 सांकेतिक	 489052/- तिथि 05.08.2025 तक तथा उस पर ब्याज	शलभराजपुर कानपुर नगर, शवराजपुर, शहरी, कानपुर, उत्तर प्रदेश, भारत-209202 क्षेत्रफल- 49.74 वर्ग मीटर। सीमाएं: पूर्व-25 फीट रोड, पश्चिम-15 फीट रोड, उत्तर-प्लॉट नंबर 44 दक्षिण- विक्रेता का प्लॉट
5.	आवेदन संख्याः UP/KNP/KANP/A000001941 श्री राम कृष्ण तिवारी श्रीमती माधुरी तिवारी दोनों निवासी: 5/108 तिवारी घर पुराना, कानपुर, मेट्रो, कानपुर, उत्तर प्रदेश, भारत-208002	08/08/2025 18.11.2025 सांकेतिक	रु. 845758/- तिथि 05.08.2025 तक तथा उस पर ब्याज	प्लॉट नंबर 38 आराजी नंबर 2027 मोजा बुडपुर मछरिया परगना, कानपुर, मेट्रो, कानपुर, उत्तर प्रदेश, भारत – 208001 क्षेत्रफल-71.07 वर्ग मीटर सीमाएं: पूर्वः बेची गई आराजी का हिस्सा पश्चिमः बेची गई आराजी का हिस्सा उत्तरः दूसरों की आराजी दक्षिणः 20 फीट चौड़ी सड़क
6.	आवेदन संख्याः UP/KNP/KANP/A00003028 श्री चांद शाह	08/08/2025 18.11.2025 सांकेतिक	रु. 415120/- तिथि	आराजी नंबर 1132, बुडपुर, मछरिया, मेट्रो, कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश, भारत -208011 क्षेत्रफल-58.33 वर्ग मीटर सीमाएं: पूर्व-शानू फर्नीचर प्लॉट पश्चिम-

निवासीः आराजी नंबर 1132, मछरिया, मछरिया, 05.08.2025 9.14 मीटर रोड उत्तर-अब्दुल सत्तार पॉट दक्षिण-मेट्रो, कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश, भारत -तक तथा उस अब्दुल रहीम प्लॉट पर ब्याज श्रीमती शबनम शबनम पताः एच-69 राजीवनगर, मछरिया, किदवई नगर, मेट्रो, कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश, भारत -आराजी नंबर 3 के हिस्से में स्थित प्लॉट, माप-आवेदन संख्याः 14/08/2025 UP/KNP/FTHR/A00000145 15.11.2025 775746/-65.1 वर्ग मीटर मीर, गांव- रन बकेवर, परगना-श्री ओम प्रकाश कोड़ा 11 और तहसील- गिंडकी, जिला-श्रीमती रेखा तिवारी 13.08.2025 फतेहपुर, 212665 क्षेत्रफल- 65.1 वर्ग मीटर,

दक्षिणः विक्रेता की जमीन प्राधिकृत अधिकारी, हिन्दुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड तिथि : 21.11.2025, स्थान : कानपुर

दोनों निवासीः ग्राम बरिगवां, 0, पोस्ट बरिगवां

वरिगवा, कुरानी रोड, ग्रामीण, फतेहपुर, उत्तर

प्रदेश, भारत-212657

परिसर का स्थानांतरण

वर्तरकरो बैक शासा सेवटर ३ (समस्प्राधीकांतीसी करनात) 19

कार्रायकरी बैंक शिमिटेन, पर्वाट

शंक्या १३५४, भूतरत और प्रथम

तल, असरते चौक के पास.

पुरावा जी ही, केंद्र, करलात,

करियम्ब - 132001

कारवरी, 2026 के जिल्लादेवीकत परे पर स्थालांतरित हो रही है।

पुराला पता लवा पता

त्रेमका ने अभिन्न - तुवा 10:00 को ने जन 4:00 को तब दुवार और की व्यक्तिय - अलक्क

अविक जानकारी के लिए

9215338999

HDFC BANK

"प्रपन्न सं. आईएनसी-26"

कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में

क्षेत्रीय निदेशक के समक्ष उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली

के मामले में धारा 13 की उपधारा (4) अधिनियम, 2013

के साथ पदें और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम

30 के उपनियम (5) के खंड (अ)

के मामले में

क्वांटिल्या कैपिटल प्राईवेट लिमिटेड

कपनी अधिनियम, 2013 के तहत जिसका पंजीकृ

कार्यालय : प्रॉप्रटी नंबर 909, सेवटर 8, अर्बन एस्टेंट

आम जनता को यह सूचना दीं जाती है कि यह कंपनी

शंतीय निदेशक के समझ कंपनी अधिनियम 2013 की

पारा 13 के अधीन आवेदन फाइल का प्रस्ताव करती है

जिसमें कंपनी का पंजीकृत कार्यालय 'हरियाणा राज्य'

में "राष्ट्रीय राजवानी क्षेत्र दिल्ली" में स्थानांतरित करने के

लिए तारीख बृहस्पतिवार ३० अक्टूबर, २०२५ को सुबह

11:00 बजे आचोजित असाधारण सामान्य बैठक हे

पारित विशेष संकल्प के संदर्भ में ळंपनी के मेमोरेंडम

ऑफ एसोसिएशन में संशोधन की पृष्टि की मांग की

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण

से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह

व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्ररूप फाइल कर

एमसीए—21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत

दर्ज कर सकता है या एक शपध पत्र जिसमें उनके

हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित

को इस सुधना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के

भीतर बी-2 विंग, द्वितीय तल, पं. वीनदयाल अंत्योदय

भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 पर्ते

सकते हैं और इसकी प्रति आवेदक कंपनी की उनके

नीचे दिए गय पंजीकृत कार्यालय के पते पर भी

प्रीपर्टी नंबर 909, सेक्टर 8, अर्बन एस्टेट,

क्रक्षेत्र, हरियाणा-136118

वाई-171, डीएलएफ कैपिटल ग्रीन्स, मोती नगर

उनके और आवेदक की ओर से

सुकात अरोड़ा

डीआईएन : 08132260

निदेशक

क्वांटिल्या कैपिटल प्राईवेट लिमिटेड

करम पुरा, पश्चिम दिल्ली-110015

के साथ अपनी आपत्ति होत्रीय निदेशक उत्तरी होत्र,

क्रक्षेत्र, हरियाणा-138118 में खियत है

पवर्गिकासी बैंक शिमिटेक

वेसमेंट, प्रतल और प्रथम तरा,

पसमीले-24, सेक्टर-3,

आरसीआई इंडस्ट्रीज एंड टेक्नोलोजीज लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय : यूनिट नं. 421, चतुर्थ तल, पर्ल ओमेक्स टॉवर, नेताजी सुमाष प्लेस, पीतमपुरा, नई दिल्ली-110034

30 जून 2025 को समाप्त तिमाड़ी के समेकित अलेखापरीक्षित वितीय परिणामों का विवरण (रू लाख में)

सीआईएन : L74900DL1992PLC047055, वेबसाइट : www.rclind.com इमेल : cirp.rci.industries.technologies@gmail.com

那	विवरण		समाप्त तिमाडी		
₹		Broker and the state of the sta	31.03.3825 अलेखापरीक्षित	And the second second second second	३१.६३ २०२५ लेखापरीक्षित
1	आय		25.5		
	क) परिवालनों से राजस्व		15.04	13.23	97.99
	ख) अन्य आय	0.68	0.53	3.62	19,73
	कुल आव	4.63	15.57	16.85	117.72
2	व्यव				
	क) चपभोगित सामग्री की सागत			1.40	8.62
	छ) स्टॉक इन ट्रेंस का क्रय	+:		+	+
	य) निर्मित वस्तुओं, डब्स्यू,आई.पी. एवं स्टॉक इन ट्रेड की इवेंटरीज में परिवर्तन			0.41	0.40*
	ध) कमर्जारी लागगत व्यय	15.62	7.29	3.56	17.98
	<ul><li>वेत सागत</li></ul>		-	-	-
	य) हास तथा शोधनपरक व्यय	115.37	135.31	135.31	541.25
	B) अन्य व्यय	163.85	76.10	32.34	156.91
	कुल व्यय	214.83	211.70	173.02	754.77
3	कर, आपवादिक मदो, पूर्व अवधि से पूर्व परिचालनों से लाभ / (हानि)	(254.15)	(203.12)	(155.13)	(637.05)
4	आप्रवादिक मर्दे				
5	पूर्व अगधि की मदे		1.00		
6	कर पूर्व लाग / (हानि)	(254.16)	(203.13)	(155.18)	(637.05)
7	कर व्यव	- of or one of the	- Automobile		- Alexandra
	(१) चालू कर		-	7.6	-
	(2) जास्थिगत कर	2.56	1.75	1.75	6.99
	कुल करगत व्यय	2.56	1.75	1.75	6.93
8	कर उपरांत की साधारण गतिविधियों से निवल लाभ / (हानि)	(256.72)	(204.83)	(157.93)	(544.34)
p.	अन्य व्यापका आग				
10	कुल व्यापक आय/(शानि)	(286.72)	(204.88)	(157.93)	(544,94)
11	प्रदत्त समता अंश पूंजी (रु. 10/— प्रत्येक का अंकित मृत्य)	1,567.64	1,657.64	1,567.64	1,567.64
12	आय प्रति अंश (रू. 10/- प्रत्येक का) (क्रवार्विकीकृत)	200,000			
e tites	क) मूलभूत	(1.83)	(1.51)	(1.01)	(4.53)
	ध) तरलीकृत	(1.89)	(1.31)	(1:01)	(4,55)

1. दिनांक 30 जून 2025 को समाप्त तिमाही के उपरोक्त वितीय परिनामों की समीक्षा लेखापरीक्षण समिति हारा 20 नवंबर 2025

2 वर्ष के दौरान कपनी की गतिविधि सभी प्रकार की पातुओं तथा पात्विक उत्पादों के विनिर्माणन तथा व्यापार के चहुंऔर होती रही कंपनी के व्यवसाय तथा परिचालनों की प्रकृति, शाथ ही साथ संसाधन आवंटन एवं निष्पादन मापन के बारे में निर्णय लेने के लिए मुख्य परिचालनकारक निर्णयकर्ता द्वारा परिचालनकारी परिचामों की समीक्षा पर अध्यारित परिणाम पर विचार करते हुए यही निष्कर्ष निकला कि यहां आईएनडी एएस 108— "ऑपरेटिंग सेगमेंट्स" की आवश्यकता के अनुसार केवल एक प्रतिवेदनयोग्य खण्डवार है। 3. दिनांक 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान कंपनी के समस्त ऋणदाताओं ने, नियत ब्याज तथा उचारी की राशि का मुगतान ।

किए जाने के कारण, खाता को अनिष्पादनीय परिसंपत्ति (एनपीए) घोषित कर दिया। यहां खातों की बहियाँ में किये नये ब्याजनत व्यय

हेत् कोई प्राक्वान नहीं है। t कंपनी को इन्सोंन्येसी एंट बैंकरपरी कोठ, 2016 (कोड) के सेक्शन a के तहत इन्सॉर्व्येसी प्रोसिकिंग्स में शामिल किया गया था और आरसीआई इंडस्ट्रीज एंड टेक्नोऑजीज लिमिटेड ('कॉर्फोरेट डेक्टर' या 'कंपनी') के मामले में कॉर्पोरेट इन्सॉल्वेसी रेजोल्युशन प्रोसेस (CIRP) 25.11.2022 से शुरू हुआ, जो माननीय नेशनाल कंपनी जो ट्रिब्यूनल (NCLT) नई दिख्ली के 25 नवंबर, 2022 के ऑर्डर के तहत C-P (IB) नंबर 2688 / 2019 में दिया गया था। बल्ध प्रोसेस के दौरान, JTL इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा जमा किए गए रेजोल्यूशन प्लान को क्रेडिटर्स की कमेटी (CoC) ने मंजूरी दी थी, जिसके बाद माननीय NCLT ने 9:10:2025 के ऑर्डर के तहत इसे मंजूरी दी। कंपनी को फिर से शुरू करने के लिए यह रेजोल्यूशन प्लान अभी मंजूर रेजोल्यूशन प्लान के अनुसार बनाई गई मॉनिटरिंग कमेटी की

देखरेख में लागू किया जा रहा है। इसलिए फाइनेशियल रिजल्ट्स को रेजोल्यूशन प्लान के चल रहे इम्प्लीमेंटेशन और कंपनी की उम्मीद को ध्यान में रखते हुए, गोइंग कंसर्न बेसिस पर तैयार किया गया है। काइनेंशियल रिजल्ट को कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 133 के तहत बताए गए इंडियन अकार्वोटेंग स्टेंडर्ट (Ind AS) में बताए गए रिकरिनशन और मेजरमेंट प्रिंसिपल्स के अनुसार तैयार किया गया है, जिसे इसके तहत जारी किए गए संबंधित नियमों और भारत में

आम तौर पर स्वीकार किए जाने वाले दूसरे अकाउंटिंग प्रिसिपल्स के साथ पढ़ा गया है। . पिछले पीरियडस के आंकडों को, जहां भी जरूरी हो. भीजुदा पीरियड के आंकडों से कम्पेयर करने लायक बनाने के लिए री-ग्प/रीजरेंज/रीस्टेट किया गया है।

. कपर दिया गया हिस्सा SEBI (LODR) रेगुलेशन, 2015 के रेगुलेशन 33 के तहत स्टॉक एक्सकेंज में फाइल किए गए 30 जून, 2025

को खरम होने वाले तिमाही के फाइनेंशियल रिजल्ट के किटेल्ड फॉर्मेंट का एक हिस्सा है। दिनांक 30 जुन, 2025 को खरम होने वाले तिमाही के फाइनेशियल रिजल्ट का पूरा फॉर्मेंट स्टॉक एक्सबेंज की वेबसाइट वानी BSE (www.bscindia.com) और कंपनी की वेबसाइट (www.rciind.com) पर भी उपसब्ध है। कृते आरसीआई इंडस्ट्रीज एंड टेक्नोसोजीज लिमिटेड

बुजेश सिंह भदौरिय (IBBI/IPA-002/IP-N01045/2020-21/13385)

Email: bsb@bsbandassociates.ir

शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

स्थान : दिल्ली

दिनाँक : 20-11-2025

पंजीकृत कार्यालय : शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड 501, साल्कन ऑरम, जसोला जनपद केन्द्र, नई दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली- 110025 तथा शाखा कार्यालय : शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, शाखा विकास नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश

> अचल संपत्तियों के विक्रयार्थ नीलामी सह विक्रय सूचना की सार्वजनिक सूचना परिशिष्ट–IV–ए [ नियम 8(6) का प्रावधान देखें|

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 9(1) के साथ पठित नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत अचल परिसंपत्तियों के विक्रयार्थ खुली नीलामी विक्रय सुचना। एतदद्वारा जनसाधारण को तथा विशेष रूप में उधारकर्ता(ओं) एवं गारंटर(रों) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत ऋणदाता के पास बंधककृत / प्रभारित निम्न विवरणित अचल संपत्ति, जिसका रचनात्मक अधिग्रहण षिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी, प्रतिभूत ऋणदाता द्वारा कर लिया गया है, उसका विक्रय 12—12—2025 को ''जैसी हैं जहाँ हैं'', ''जैसी हैं जो हैं' तथा ''वहाँ जो कुछ भी हैं' आधार पर किया जायेगा। यह विक्रय, 1. मैसर्स सत्याशा एंटरप्राइजेज (उधारकर्ता) अपने मालिक के माध्यम से, निवासी शॉप नंबर 02, हीरा प्लाजा विकास नगर उत्तर प्रदेश 226022, 2. श्री विकास श्रीवास्तव पुत्र श्री सत्य प्रकाश श्रीवास्तव (मालिक / बंधककर्ता) निवासी– एफ 717, राजाजी पुरम, आलमनगर लखनऊ उत्तर प्रदेश 226017, 3. श्री सत्य प्रकाश श्रीवास्तव पुत्र श्री गुलाब चंद श्रीवास्तव (गारंटर), निवासी : मकान नंबर एफ 717, राजाजी पुरम, आलमनगर लखनऊ, उत्तर प्रदेश 226017, 4. श्रीमती आशा श्रीवास्तव पत्नी श्री सत्य प्रकाश श्रीवास्तव (गारंटर) निवासी— मकान नंबर एफ 717, राजाजी पुरम, आलमनगर लखनऊ उत्तर प्रदेश 226017 की ओर से शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड प्रतिभूत ऋणदाता को देय—भुग्तेय 19—04—2024 के अनुसार रु. 71,45,000 / — (रुपये इकहत्तर लाख पैंतालिस हजार मात्र) की एक राशि तथा उक्तावधि के पश्चात् राशि पर नियत ब्याज व शुल्कों आरक्षित मूल्य रु. 10,93,500/- (रुपये दस लाख तिरानबे हजार पांच सौ मात्र) होगा तथा धरोहर राशि जमा, बोली राशि की 10 प्रतिशत अर्थात् रु. 1,09,350/- (रुपये एक

लाख नौ हजार तीन सौ पचास मात्र) होगी। बाद की राशि 11–12–2025 को सायं 5 बजे तक अथवा इस से पूर्व बैंक में जमा की जानी है, जिसके विवरण यहाँ इसमें नीचे दिये

उधारकता(आ) / गारंटर(रों) के नाम	तथा माँग सूचना के अनुसार बकाया राशि	अचल संपात्तयां का विवरण	मूल्य	राषि जमा (धराज)
1. मैसर्स सत्याशा एंटरप्राइजेज (उधारकर्ता) अपने मालिक के माध्यम से, निवासी शॉप नंबर 02, हीरा प्लाजा विकास नगर उत्तर प्रदेश 226022, 2. श्री विकास श्रीवास्तव पुत्र श्री सत्य प्रकाश श्रीवास्तव (मालिक / बंधककर्ता) निवासी— एफ 717, राजाजी पुरम, आलमनगर लखनऊ उत्तर प्रदेश 226017, 3. श्री सत्य प्रकाश श्रीवास्तव पुत्र श्री गुलाब चंद श्रीवास्तव (गारंटर), निवासी: मकान नंबर एफ 717, राजाजी पुरम, आलमनगर लखनऊ, उत्तर प्रदेश 226017, 4. श्रीमती आशा श्रीवास्तव पत्नी श्री सत्य प्रकाश श्रीवास्तव (गारंटर) निवासी— मकान नंबर एफ 717, राजाजी पुरम, आलमनगर लखनऊ उत्तर प्रदेश 226017 (ऋण खाता संख्या 102441000246)	रु. 71,45,000 / — (रुपये इकहत्तर लाख पैंतालिस हजार मात्र)	अचल संपत्तियों के समस्त भाग तथा अंश ─ जिनका पता है— 1. वाणिज्यिक संपत्ति, 169 वर्ग गज यानी 15.706 वर्ग मीटर, कार्यालय स्थान नंबर 21, तीसरी मंजिल, आर्यावर्त परिसर, प्लॉट नंबर 3, 4 और 6 खसरा नंबर 25, विजयीपुर वार्ड चिनहट तहसील और जिला लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है, जो बही नंबर 1, जिल्द नंबर 24531, पृष्ठ संख्या 171—186, सीरियल नंबर 812, दिनांक 16—01— 2021 के राजस्व रिकॉर्ड में पंजीकृत है, श्री विकास श्रीवास्तव पुत्र श्री सत्य प्रकाश श्रीवास्तव के नाम पर।	10,93,500/- (रुपये दस लाख तिरानबे हजार पांच सौ मात्र)	आरक्षित मूल्य का 10% अर्थात् रु. 1,09,350 / – (रुपये एक लाख नौ हजार तीन सौ पचास मात्र)
शहान संग्रानियों के निर्माणा की निर्मा : 40 दिसंबर 2005 र	को ४४ ०० तस्त्रे ००	00 ताने		

अचल संपत्तियों के निरीक्षण की तिथि : 10 दिसंबर 2025 को, 11.00 बर्ज — 03.00 बर्ज बोली खोलने की नीलामी तिथि एवं समय : 12 दिसंबर 2025 को, 11.00 से 12.00 बजे

प्रस्तावों / धराज को जमा करने की अंतिम तिथि : 11 दिसंबर 2025 को 5.00 बजे तक विक्रय के विस्तृत नियमों तथा शर्तों के लिये कृपया शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक, प्रतिभूत ऋणदाता की वेबसाइट https://shivalikbank.com/auction of bank

जाने पर उसे वापस नहीं लिया जा सकता।

properties.php में उपलब्ध कराये गये लिंक का संदर्भ ग्रहण करें। विक्रय के महत्त्वपूर्ण नियम तथा शर्ते :--

(1) संपत्ति का विक्रय ''जैसी हैं जहाँ हैं, वहाँ जो कुछ भी हैं तथा बिना संसाधनगत वसूली'' के आधार पर किया जा रहा है क्योंकि ऐसा विक्रय किसी भी आश्वासन एवं क्षतिपूर्ति

संपत्ति / प्रलेखों का निरीक्षण बैंक के प्राधिकत अधिकारी के साथ ऊपर दी गई तिथि एवं समय पर किया जा सकता है। विक्रय के समस्त सामान्य नियमों तथा शर्तों से समाविष्ट बोली प्रलेख / प्रपत्र यहाँ इसमें ऊपर वर्णित बैंक के शाखा कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस पर कार्यालय समय के दौरान प्राधिकृत अधिकारी से प्राप्त किये जा सकते हैं। इच्छूक बोलीदाताओं को निर्धारित बोली प्रपत्र पर अपनी मोहरबंद बोलियां बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के पास

मोहरबंद लिफाफे में जमा की जानेवाली बोली में, नीलामी संपत्ति हेतू बोली का उल्लेख किया गया हो तथा बोली, धराज (बोली राषि की 10 प्रतिषत के रूप में) के साथ ''शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड'' के पक्ष में आहरित एवं विकास नगर शाखा, लखनऊ में भग्तेय डिमांड ड्राफ्ट द्वारा संलग्न कर 11 दिसंबर 2025 को 5.00 बजे तक अथवा इस तिथि से पूर्व बैंक के ऊपर वर्णित शाखा कार्यालय में जमा करनी होगी। बोलियां जो भरी नहीं गई होंगी अथवा अंतिम तिथि एवं समय के उपरान्त प्राप्त की गईं बोलियां अवैध मानी जाएंगी तथा उन्हें तद्नुसार निरस्त कर दिया जायेगा। धराज पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। बोलीदाता द्वारा एक बार बोली जमा कर दिये

मोहरबंद बोलियां 12 दिसंबर 2025 को 10.00 बजे - 12.00 बजे बैंक के उक्त वर्णित शाखा कार्यालय में उस समय उपस्थित रहनेवाले बोलीदाताओं की उपस्थिति में खोली जाएंगी तथा उसके पष्चात् योग्य बोलीदाताओं को प्राधिकृत अधिकारी के विवेक पर, प्रस्तावगत मृल्य बढ़ाने के लिए पारस्परिक बोलीदान में भागीदारी करने का एक अवसर

जमा किया जानेवाला बोली मूल्य, आरक्षित मूल्य से अधिक होगा तथा बोलीदाता को आगे रु. 50,000 / – के गुणक में अपने प्रस्ताव को बढ़ाना होगा। सम्पत्ति को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निर्धारित आरक्षित मुल्य से कम पर नहीं बेचा जाएगा।

सफल बोलीदाता से अपेक्षा की जाती है कि वह विक्रय मूल्य की 25 प्रतिषत रकम (धराज सहित) का जमा भुगतान तत्काल अधिकतम अगले कार्यदिवस तक षिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के पक्ष में आहरित नोएडा में भुग्तेय डिमांड ड्राफ्ट द्वारा करें तथा विक्रय मूल्य की शेष राषि का भुगतान सफल बोलीदाता को, बैंक द्वारा विक्रय की अभिपुष्टि की तिथि से 15 दिवसों के अंदर, करना होगा। इच्छुक बोलीदाताओं द्वारा भुगतान की गई धराज और विक्रय मूल्य पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। यदि सफल बोलीदाता विक्रय के नियमों का पालन नहीं करता है अथवा कोई चूक करता है, तो धराज की जमा अथवा इसका 25 प्रतिषत, जैसा भी मामला हो, बैंक द्वारा जब्त कर लिया जायेगा। बैंक जो है वह प्रस्तावित सम्पत्ति के संदर्भ में, किसी प्राधिकरण से अथवा लागूरत् किसी अन्य विधि के अंतर्गत, किसी अनुमति / एनओसी अथवा किसी अन्य देयराषि अर्थात्

बकाया जल / विद्युत देयताएं, सम्पत्ति कर, नगरपालिका / पंचायत कर या अन्य प्रभार, यदि कोई, की अधिप्राप्ति का कोई उत्तरदायित्व नहीं लेता। सफल बोलीदाता जो है वो किसी विकास प्राधिकरण की बकाया देयराषियों, यदि कोई/नगर निगम अथवा किसी अन्य प्राधिकरण/एजेंसी को भृग्तेय कर/यूटिलिटी बिल

तथा 'विक्रय प्रमाणपत्र' के पंजीकरण हेतु स्टांप शुल्क / पंजीकरण शुल्क इत्यादि भुगतानयोग्य शुल्कों सहित समस्त व्ययों के भुगतान वहन करेगा। प्राधिकृत अधिकारी के पास बिना कोई कारण बताए किसी अथवा समस्त प्रस्तावों / बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने अथवा विक्रय को स्थगित / निरस्त करने या

किसी किसी पूर्व सूचना के बिना ही विक्रय के किसी नियम को संघोधित करने का पूर्णाधिकार तथा विवेकाधिकार सुरक्षित है। एक बार बोलियों को लगाने के बाद उन्हें निरस्त अथवा वापस नहीं किया जा सकेगा।

(12) अपने सर्वोत्तम ज्ञान एवं जानकारी के अनुसार बैंक, बैंक को छोड़कर, विक्रय की जानेवाली सम्पत्ति पर किसी भारग्रस्ता के बारे में अवगत नहीं है। इच्छुक पक्षकारों को अपनी संतुष्टि के अनुसार सम्पत्ति पर अपना स्वयं का आकलन कर लेना चाहिए। बैंक किसी भी प्रकार से उपर्युक्त सम्पत्ति की उपयुक्ता / हकदारी के संबंध में गारंटी नहीं देता अथवा कोई अभिवेदन प्रकट नहीं करता। किसी अन्य जानकारी के लिए, प्राधिकृत अधिकारी को, उपर्युक्त सम्पत्ति के संदर्भ में सरकार अथवा किसी व्यक्ति को देय किसी प्रभार, धारणाधिकार, भारग्रस्तता, सम्पत्ति कर अथवा किसी अन्य देय के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकेगा। एतदद्वारा उधारकर्ताओं) / बंधककर्ताओं) / गारंटर(रॉ) को सूचित किया जाता है कि वे विक्रय कार्यवाही के समय पर व्यक्तिगत रूप में उपस्थित रहें तथा वे विक्रय के नियमों एवं शर्तों के विवरणों के अनुसार यहाँ इसमें ऊपर

विवरणितानुसार अचल सम्पत्ति को क्रय करने के लिए इच्छुक क्रेताओं / खरीददारों को अपने साथ ला सकते हैं। अचल संपत्ति का विक्रय सर्वोच्च बोलीदाता को किया जायेगा। हालांकि अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास, यदि वे अनिवार्य समझते हैं, परस्पर बोलीदान की अनुमति प्रदान करने

का पूर्ण विवेकाधिकार सुरक्षित है। 14) बैंक, बैंक की जानकारी से बाहर की सम्पत्ति पर निर्धारित किसी देयता के लिए उत्तरदायी नहीं है।

उधारकर्ता(ओं) / बंधककर्ता(ओं) / गारंटर(रों) को एतद्द्वारा सरफॉएसि अधिनियम के नियम 9(1) के साथ पठित नियम 8(6) के अंतर्गत 15 दिवसीय साँविधिक विक्रय सूचना दी जाती है कि वे समाचारपत्र के क्रमशः हिंदी एवं अंग्रेजी संस्करण में प्रकाशित इस सूचना की तिथि से 30 दिवसों के अंदर अद्यतन ब्याज एवं व्ययों के साथ ऊपर अंकितानुसार बकाया देयराषियों व अपनी देयताओं का पूर्ण भुगतान करें। भुगतान करने में विफल रहने की स्थिति में प्रतिभूत परिसंपत्ति को ऊपर वर्णित नियमों एवं शर्तों के अनुसार बेच दिया जायेगा। यदि यहाँ अंग्रेजी एवं देषी भाषा के समाचार–पत्रों में विक्रय सूचना के प्रकाषनों के मध्य कोई अंतर होता है तो ऐसी स्थिति में अंग्रेजी समाचार-पत्र देषी भाषा के समाचार-पत्र का अधिक्रमण करेगा तथा इसे ही अंतिम प्रति के रूप में माना-विचारा जाएगा, इस प्रकार प्रकाषन अस्पष्टता दूर होगी। यदि उधारकर्ता / गारंटर / बंधककर्ता, बैंक को देय राषि का विक्रय की तिथि से पूर्व पूर्ण भुगतान कर देते हैं तो नीलामी को रोक दिया जायेगा। हालांकि ऐसी स्थितियों में,

सूचना में बकाया राषि पर ऋण प्रलेखानुसार, राषि के वसूल होने तक देय एवं भुगतानयोग्य भावी ब्याज, आकस्मिक व्यय, लागत, इत्यादि लागू अनुसार प्रभारित होंगे। प्राधिकृत अधिकारी का निर्णय अंतिम, बाध्यकारी एवं प्रश्नातीत है। बोली जमा कर चुके सभी बोलीदाताओं के बारे में यह माना जायेगा कि उन्होंने नीलामी विक्रय के नियमों

एवं शर्तों को पढ़ व समझ लिया है तथा वे उन पर बाध्यकारी हैं। (17) विवरणों, सहायता, प्रक्रिया एवं बोलीदान के लिये प्रस्तावित बोलीदातागण श्री अभय जय सिंह, संपर्क नंबर 9335418087 से संपर्क कर सकते हैं। कृपया ध्यान दें कि प्रतिभूत ऋणदाता, बैंक सभी उधारकर्ताओं / सह–उधारकर्ताओं / गारंटरों / बंधककर्ताओं को उनके पतों पर डाक द्वारा विक्रय सूचना निर्गत करने जा

रहे हैं। यदि यह सूचना किसी भी पक्ष द्वारा प्राप्त नहीं की जाती है, तो विक्रय सूचना के इस प्रकाशन को सूचना–प्राप्ति के वैकल्पिक माध्यम के रूप में माना जा सकता है। उधारकर्ता / सह–उधारकर्तागण / गारंटरगण / बंधककर्तागण को भी एतद्दवारा सूचित किया जाता है कि उन्हें इस प्रकाशन के 15 दिनों के अंदर पूर्व अनुमति के साथ, उपरोक्त परिसरों के अंदर 🖊 बैंक की अभिरक्षा में पड़े अपने घरेलू सामानों, यदि कोई हो, की सुपुर्दगी अवश्य लेनी होगी। ऐसा न करने पर बैंक का उन सामानों के संबंध में कोई उत्तरदायित्व / जवाबदेही नहीं होगी और वह उधारकर्ता / सह–उधारकर्ताओं / गारंटरों / बंधककर्ताओं के जोखिम पर उनका निस्तारण करेगा और इनके विक्रय से

होनेवाली आय को बकाया राशि में समायोजित करेगा। 3. यदि किसी भी कारण, चाहे जो कुछ भी हो, से नीलामी विफल हो जाती है तो कंपनी, सरफॉएसि अधिनियम 2002 के अंतर्गत अधिदेशित प्रावधानों के अनुसार निजी संधि के

माध्यम से उपरोक्त बंधककृत संपत्तियों को बेचने के लिए स्वतंत्र होगी। दिनाँक : 20-11-2025 स्थान : नोएडा

शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

epaper.jansatta.com

सीमाएं: पूरब: 15 फीट चौड़ी कच्ची सड़क पश्चिम:

स्रेंद्र प्रताप की जमीन उत्तरः विक्रेता की जमीन

तक तथा उस

हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी,